

## नकली शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप : पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर नकली शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार



देवघर : बड़ी खबर देवघर से जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जसीडीह एवं रिखिया थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली शराब के साथ 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है. पकड़े गये लोग नकली पैकेजिंग कर जिला से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में तय कीमत पर शराब बेचते थे.

बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने जिले के जसीडीह और रिखिया थाना क्षेत्र में नकली शराब सहित 3 व्यक्तियों को पकड़ा है. इन व्यक्तियों द्वारा बाहर से विदेशी शराब को यहां मंगवाया जाता था और फिर उसे विभिन्न ब्रांड की बोतलों में पैकेजिंग करके बाजार में खपाया जाता था. इस शराब का सेवन करने से किसी की भी जान जा सकती थी. गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा रॉयल प्लेयर व्हिस्की, इंपिरियल ब्लू व्हिस्की और रॉयल स्टेग व्हिस्की का नकली पैकेजिंग कर जिला से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में तय कीमत पर बेचा जाता था.

उत्पाद विभाग की टीम ने रिखिया थाना क्षेत्र से मनोज कुमार यादव और शिवाजी मंडल, वहीं जसीडीह थाना क्षेत्र से मनोज यादव को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 16 पेटी में 408

बोतल नकली विदेशी शराब बरामद किया गया है. इनमें से रॉयल प्लेयर व्हिस्की की 48 बोतल, इंपिरियल ब्लू व्हिस्की की 240 बोतल और रॉयल स्टैग व्हिस्की 120 बोतल के साथ रॉयल प्लेयर व्हिस्की ब्रांड का ढेर सारा खाली कार्टून को जब्त किया है. छापेमारी के दौरान चार अन्य अभियुक्त फरार होने में कामयाब हुए हैं. उत्पाद विभाग की इस कार्यवाही से नकली शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

Source: <https://kashishnews.com/news/nakali-sharav-karobariyon-mai-macha-harkampa-719382>